



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 119]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 20, 2012/पौष 30, 1933

No. 119]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 20, 2012/PAUSA 30, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2012

का.आ. 129(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष भूमि अर्जन अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मलबाल्लि को कर्नाटक राज्य में, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 के 266.530 कि.मी. से 469.310 कि.मी. तक के भू-खण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण (चोड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की नाग्य से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 209 के 266.530 कि.मी. से 469.310 कि.मी. तक की बाबत भूमि का अर्जन

क्रम संख्या	जिला	तालुक	पुलिस थाना	गांव का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	चामाराजनगर	1. चामाराजनगर	चामाराजनगर	(1) पुजनुर (2) कुल्लुरु (3) अटगुलिपुरा (4) बोम्पनहल्लि (5) हरादानहल्लि (6) बंडिगेरे (7) बसवपुरा (8) अकानमेटिपुरा (9) बकाटय्यना छत्रा (10) बविनतलापुरा (11) श्रिरंगपुरा (12) किरागसुर (13) चामाराजनगर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(14) मसगपुरा
				(15) कडहल्लि
				(16) पादापुरा
				(17) देसवल्लि
				(18) मगला
				(19) सतैमारहल्लि
				(20) केम्पनापुरा
	2. यलंदूर		यलंदूर	(1) जौडिमेल्हल्लि
				(2) दुग्गहटि
				(3) अवालकंदाल्लि
				(4) दुयमकदाल्लि
				(5) अवाले
				(6) यलंदूर रुल
				(7) यरियूर
				(8) गाणियनूर
				(9) उप्पिनामोले
				(10) मद्रूर
				(11) शिवकहल्लि
				(12) अलकोरे अग्रहरा
				(13) किनकहल्लि
				(14) अगर
				(15) मारबाल्लि
				(16) बर्निसरिया
	3. कोल्लेगाल		कोल्लेगाल	(1) कुणगाल्लि
				(2) तेरुमबाल्लि
				(3) उटबाल्लि
				(4) मुल्लुरु
				(5) हम्पापुरा
				(6) दासनपुरा
				(7) हरेले
				(8) अग्रहारा
				(9) सिदय्यनापुरा
				(10) जिनकनहल्लि
				(11) सरगूर
				(12) धनगोरे
				(13) उगनिया
				(14) सतेगाला
2.	मंडया	मलवल्लि	होसहल्लि	(1) मल्लिकयातनहल्लि
				(2) बेलकवाडि
				(3) हासहल्लि
				(4) दासनदाडिड
				(5) वोडडगहल्लि
				(6) शिरामल्लि
				(7) पंडितहल्लि
				(8) बच्चनहल्लि
				(9) देवलिगनापुरा
				(10) साहल्लि

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			मलवल्लि	(11) हाडिल (12) कोडिपुरा (13) निडवटा (14) अंकनहल्लि (15) मरगोडनहल्लि (16) मोरेहल्लि (17) अटुवनहल्लि (18) नडकलपूरा (19) मेगलपूरा (20) बसवनपूरा (21) चिन्निपूरा (22) हुल्लागला (23) दादमहल्लि (24) किरगमुरु (25) बानसमुद्रा (26) हलसहल्लि (27) ग्रमदेवतापुरा (28) गोडगेरे (29) तोरेकदनहल्लि (30) चिल्लपुरा (31) वोडेयगबसपुरा (32) नजःपुरा (33) गोदलरहल्लि (34) हुल्लगरु (35) शिवनहल्लि (36) हगडूरु (37) होसपेटेबमवपुरा (38) गुडपुग (39) ओर्गजतिम्मनदोडिड (40) यानोहोन्निग (41) दलवाई कोडिहल्लि (42) देवीराहल्लि
3.	रामनगर	कनकपुरा	सातनूरु	(1) होन्निगनहल्लि (2) मुडलम्बामिकूप (3) कडहल्लि (4) केम्मल (5) हनमूरु (6) अनमनहल्लि (7) सातनूरु (8) दालिवा (9) देशोहल्लि (10) चटुगोडनहल्लि (11) तोटहल्लि (12) बोम्मनहल्लि (13) अचलु (14) सीगेकोटे (15) अजनापुरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(16) शिवनहल्लि
				(17) कनकपुरा (रुल)
				(18) तम्मसद्रा
				(19) अगलात्सद्रा
				(20) होरलगल्लु
				(21) तिगलरहल्लि
				(22) कल्लहल्लि
				(23) अग्रहारा
				(24) तुंगनि
				(25) रायसंद्रा
				(26) रामपुरा
				(27) चीलूरु
				(28) जावकासंद्रा
		हारोहल्लि		(29) कीरनगरे
				(30) देवरकगुलहल्लि
				(31) मरलगरे
				(32) हारोहल्लि
				(33) मरमद्रा
				(34) मुद्दनहल्लि
				(35) होमकाट
				(36) गब्बडिकावल
				(37) गब्बडि
				(38) कगुलहल्लि
				(39) यदमाडु
				(40) वट्टहल्लि
4.	बेंगलुरु जिला	बेंगलुरु सोत तालुक	मल्लमद्रा	(1) रावुगाडलु
				(2) नेटिगेरे
				(3) नेलगुलि
				(4) सोमनहल्लि
				(5) के. चूडहल्लि
				(6) कगुलिपुरा
				(7) बडम्पनवरतेकावल
				(8) अगर
				(9) तिप्पसंद्रा
				(10) उत्तरहल्लि
				(11) मल्लसंद्रा
				(12) उत्तरि
				(13) तलघटापुरा
				(14) होसहल्लि
				(15) गब्बलालु
				(16) रघुवनहल्लि
				(17) दोडडकल्लसंद्रा
				(18) वसंतपुरा

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th January, 2012

**S.O. 129(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the Special Land Acquisition Officer, National Highways Authority of India, Malavalli, as the competent authorities to perform the functions of such authority under the said Act with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land Km. 266.530 to Km. 469.310 of the National Highway No. 209 for building (widening/four-laning etc.), maintenance, management and operation of the said National Highway in the State of Karnataka as specified in the Schedule given below.

**SCHEDULE**

**Acquisition of land in respect of National Highway No. 209 in the State of Karnataka on the stretch from Km. 266.530 to Km. 469.310**

Sl. No.	District	Taluk	Police Station	Name of Village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Chamarajanagar	1. Chamarajanagar	Chamarajanagar	(1) Punajanur (2) Kulluru (3) Attagulipura (4) Bommanahalli (5) Haradanahalli (6) Bandigere (7) Basavapura (8) Ankanasettypura (9) Venkataiahna Chatra (10) Bevinathalapura (11) Srirangapura (12) Kiragasur (13) Chamaraj nagar (14) Masagapura (15) Kadahalli (16) Madapura (17) Desavalli (18) Mangala (19) Santhemanahalli (20) Kempapura (21) Dharpura
		2. Yelandur	Yelandur	(1) Jodimellahalli (2) Duggahatti (3) Avalkandalli (4) Duvankandalli (5) Ambale (6) Yelandur Rural (7) Yeriur (8) Ganiganur (9) Uppinamole (10) Maddur (11) Shivakahalli (12) Alkereagrahara

2054712-2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		3. Kollegal	Kollegal	(13) Kinakahalli (14) Agara (15) Mamballi (16) Bannisange (1) Kunagalli (2) Teramballi (3) Uttamballi (4) Mullur (5) Hampapura (6) Dasanapura (7) Harale (8) Agrahara (9) Siddayyanapura (10) Jinakanahalli (11) Saragur (12) Dhanagere (13) Uganiva (14) Sathegala (1) Mallikyathanahalli (2) Belakavadi (3) Hosahalli (4) Dasanadoddi (5) Voddarahalli (6) Shiramalli (7) Pandithahalli (8) Bachanahalli (9) Devalinganapure (10) Sahalli (11) Hadli (12) Kodipura (13) Nidaghatta (14) Ankanahalli (15) Maragowdanahalli (16) Marchalli (17) Attuvanahalli (18) Nadakalapura (19) Megalapura (20) Basavanpura (21) Channipura (22) Hullagala (23) Dadamahalli (24) Kiragasur (25) Banasamudra (26) Halasahalli (27) Gramadevathepura
2.	Mandya	Malavalli	Hosahalli	
			Malavalli	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(28) Gowdagere
				(29) Thorekadanahalli
				(30) Chillapura
				(31) Vodeyarabasapura
				(32) Nanjapura
				(33) Gollarahalli
				(34) Halaguru
				(35) Shivanahalli
				(36) Hagadur
				(37) Hosapetebasavapura
				(38) Gundapura
				(39) Veerajummanadoddi
				(40) Balehonniga
				(41) Dalavaikodihalli
				(42) Deveerahalli
3.	Ramanagara	Kanakapura	Sathanur	(1) Honniganahalli
				(2) Mudalaswamikuppe
				(3) Kadahalli
				(4) Kemmale
				(5) Halasuru
				(6) Anamanahalli
				(7) Sathanur
				(8) Dalimba
				(9) Deshohalli
				(10) Yadugowdanahalli
				(11) Thotahalli
				(12) Bommanahalli
			Kanakapura	(13) Achalu
				(14) Seegekote
				(15) Anjanapura
				(16) Shivanahalli
				(17) Kanakapura (Rural)
				(18) Thammasandra
				(19) Aralalusandra
				(20) Horalagallu
				(21) Tigalarahalli
				(22) Kallahalli
				(23) Agrahara
				(24) Tungani
				(25) Rayasandra
				(26) Ramapura
				(27) Cheeluru
				(28) Jakkasandra
			Harohalli	(29) Keeranagere
				(30) Devarakaggalahalli

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(31) Maralagere
				(32) Harohalli
				(33) Marasandra
				(34) Mudelahalli
				(35) Hosakote
				(36) Gabbadi Kaval
				(37) Gabbadi
				(38) Kaggalahalli
				(39) Yadamadu
4.	Bangalore District Bangalore South	Mallasandra		(40) Vaderahalli
				(1) Ravugodlu
				(2) Nettigere
				(3) Nelaguli
				(4) Somanahalli
				(5) K Chudahalli
				(6) Kaggalipura
				(7) Badamanavarthe Kaval
				(8) Agara
				(9) Thippasandra
				(10) Uttarahalli
				(11) Mallasandra
				(12) Uttari
				(13) Thalaghattapura
				(14) Hosahalli
				(15) Hosahalli
				(16) Gabbalalu
				(17) Raghuvarahalli
				(18) Doddakallasandra
				(19) Vasanthapura

[F. No. NHAI/27015/2011-12/PIU-BNG]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.